



प्रेसनोट
निकट- ओ0एन0जी0सी0हैलीपैड
गढीकैन्ट,देहरादून- 248001
दूरभाष 2559898-0135 -फैक्स2559988 -

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद
निकट ओ0एन0जी0सी0हैलीपैड
गढी कैन्ट देहरादून 248001
दूरभाष 01352559898 फैक्स2559988

प्रेसनोट

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार से जुड़े स्टेक होल्डर्स के सशक्तिकरण के उद्देश्य से होम स्टे व्यवसायों के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रशिक्षण कैम्पेन का शुभारम्भराम नगर के कालागड़ रोड़ स्थित ग्राम मल्लाकनिया से किया गया। यह कैम्पेन दिनांक 30 मई, 2019 से 05 जून, 2019 तक चलेगा। प्रथम चरण में कुमाँऊमण्डल के रामनगर कसार देवी बागेश्वर, मुनस्यारी, चौकोड़ी तथा जागेश्वर के होम स्टे स्वामियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने कहा कि राज्य के विभिन्न अल्प ज्ञात डैस्टिनेशनस् में होम स्टे व्यवसायों को आधुनिकतम तकनीकी से जोड़ते हुए व्यवसायिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से इस कैम्पेन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के होम स्टे स्वामियों को कुशल तकनीकी प्रशिक्षकों के माध्यम से सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग करवायी जायेगी ताकि वे इन्टरनेट, डिजिटल मार्केटिंग तथा सोशल मीडिया आदि के माध्यम से घर पर बैठकर भी सुदूर बैठे ग्राहक उपभोक्ता से सम्वाद स्थापित कर सकें।

जिला पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल अरविन्द गौड़ ने बताया कि कैम्पेन के प्रथम दिन इस कार्यक्रम में लगभग 25 होम स्टे स्वामियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान होम स्टे व्यवसायों को फेसबुक पेज बनाने, वेब पेज बनाने, वेबसाइट बनाने तथा फोटो एवं विडियो अपलोड करने जैसे आकर्षक विषयों पर ट्रेनिंग दी गयी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण पृष्ठ भूमि वाले होम स्टे स्वामियों को आधुनिक डिजिटल माध्यमों के प्रयोग के विषय में बारीकी से जानकारी दी गयी। अपनी तरह के इस पहले प्रशिक्षण की खास बात यह रही कि पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन 'द रेंजर्स लॉज नामक होम स्टे में ही किया गया।

कमल किशोर जोशी
जनसम्पर्क अधिकारी
उत्तराखण्ड पर्यटन